

प्रेस नोट दिनांक 22.03.2021
थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली ।

थाना फतेहगंज पूर्वी #bareillypolice द्वारा पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध असलाह व कारतूस बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी महोदय फरीदपुर, बरेली के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक फतेहगंज पूर्वी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.03.21 को उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार, उ0नि0 श्री विजय कुमार, उ0नि0 श्री कृष्णअवतार सिंह, मय हमराही का0 2204 अंकुश चौधरी, का0 1608 विकास राघव, का0 2981 शुभम कुमार व का0 1570 महेश कुमार को जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति असलहों से लैस होकर जरौल पुलिया पर बैठे हैं। जब हम पुलिस वाले जरौल पुलिया के पास पहुंचे तो पाँच व्यक्ति ग्राम जरौल वाले रास्ते पर आते दिखाई दिये। एक व्यक्ति के पास कंधे पर एक राइफल बन्दूक जैसा बड़ा शस्त्र दिखाई दिया तो उसके बाद अधि0/कर्म0गणों के द्वारा घेर घोटकर उन पांचों व्यक्तियों को समय करीब 19.40 बजे पकड़ लिया। पकड़े गये पांचों व्यक्तियों के पास पांच अवैध असलाह व 12 जिन्दा कारतूस थे। जिससे पांचों व्यक्तियों पर मु0अ0सं0 79/80/81/82/83/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है।

बरामदगी:-

1. 01 अदद देशी राइफल 315 बोर मय 04 अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा चालू हालत में
2. 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर
3. 03 अदद तमंचा 12 बोर मय 06 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर

अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. मैनेजर पुत्र सेठपाल निवासी ग्राम धनौरा थाना दातागंज जिला बदायूं।
2. प्रमोद पुत्र दीनानाथ निवासी ग्राम धनौरा थाना दातागंज जिला बदायूं।
3. मनपाल पुत्र गुलजारी निवासी ग्राम धनौरा थाना दातागंज जिला बदायूं।
4. वीरपाल पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम धनौरा थाना दातागंज जिला बदायूं।
5. नरसिंह पुत्र रोशन सिंह निवासी ग्राम जरौल थाना फतेहगंज पूर्वी जिला बरेली।

पुलिस पार्टी के सदस्यों के नाम:-

1. उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।
2. उ0नि0 श्री विजय कुमार थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।
3. उ0नि0 श्री कृष्णअवतार सिंह थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।
4. का0 2204 अंकुश चौधरी थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।
5. का0 1608 विकास राघव थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।
6. का0 2981 शुभम कुमार थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।
7. का0 1570 महेश कुमार थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

**प्रभारी निरीक्षक फतेहगंज पूर्वी
जनपद बरेली।**